

# CLASS - IV

## Curriculum Planner : 2021-22

### ENGLISH

Months	Date	Book/Lesson	Art Integration	Activities
April	1-15	<b>My English Reader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Unit-I, Sports-A</li> <li>● True Friend</li> <li>● Mix-up at Birth</li> <li>● Paragraph</li> </ul>	Pictures Link/Video	Students will cut & paste pictures of different sports personalities write a paragraph
	16-30	<b>English Practice Book</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nouns</li> <li>● Genders</li> <li>● Letter writing (Writing Skills)</li> <li>● Paragraph (Writing Skills)</li> </ul>	Videos	
May	1-15	<b>English Reader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diary Entry</li> <li>● What's Really Important (Kabbadi)</li> </ul>	Link/Video	
	17-28	<b>English Practice</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pronouns</li> <li>● Prepositions</li> <li>● Paragraph</li> </ul>	Videos	
July	1-15	<b>English Reader</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Unit-2 : Travel</li> </ul>	Link	Students will draw or paste pictures about their favourite place & will also write about the place
	16-31	<b>English Practice</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Unit-5: Describing Worlds (Adjectives)</li> <li>● Determiners (U-6)</li> <li>● Advertisement</li> <li>● Application</li> </ul>		

<b>August</b>	2-14	<b>English Reader</b>	
	16-30	<b>English Book</b>	
<b>Sept.</b>	1-15	Revision of the syllabus covered	
<b>Oct.</b>	1-15	<b>English Reader</b>	
	16-30	<b>Practice Book</b>	
<b>Nov.</b>	1-15	<b>English Practice Book</b>	
	16-30	<b>English Reader</b>	
<b>Dec.</b>	1-15	<b>English Practice Book</b>	
	16-30	<b>English Practice Book</b>	
<b>Jan.</b>	10-30	Unit-11, 12	

- Revision of Unit 1, 2 Practice

- Revision of Unit 1 to 6
- Practice of Comprehension Passages, Paragraphs, Letter/Application

**English Reader**

- Unit-3: Wit & Humour

Links/Pictures

**Practice Book**

- Wit & Humour

Students will draw different faces with different expressions.

**English Practice Book**

- Unit-7: Verbs
- Unit-8: Adverbs
- The Three Ruler

Videos

**English Reader**

- Unit-4: "Fantasy"
- Paragraph

Pictures  
Link

**English Practice Book**

- Unit-4: "Fantasy"
- Diary Entry

**English Practice Book**

- Unit-9, 10
- Tenses
- Sentences

Students will make a colourful chart on "Three Forms of Verbs"  
Videos

Unit-11, 12

- Interrogative
- Conditionals

Videos

**Revision of the whole syllabus for Final Exams**  
**English Syllabus**

<b>Unit-1</b>	<p><b>English Reader</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit-1: "Sports"</li> </ul> <p><b>Practice Book</b></p> <p>Unit-1, 2, 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naming Words</li> <li>Genders</li> <li>Pronouns</li> </ul> <p>Letter, Paragraph, Writing Comprehension Passage</p>
<b>Half Yearly</b>	<p><b>English Reader</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit-1, 2</li> </ul> <p><b>Practice Book</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprehension Passages</li> </ul> <p>Paragraph, Letter, Diary Entry &amp; Advertisements</p>
<b>Unit-2</b>	<p><b>English Reader</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit-3:</li> </ul> <p><b>Practice Book</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbs, Adverbs, Letter, Paragraph, Comprehension Passage</li> </ul>
<b>Final Exams</b>	<p><b>English Reader Book</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit-3, 4</li> </ul> <p><b>English Practice Book</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit-7 to 12</li> <li>Comprehension Passages</li> <li>Letter/Application, Paragraph, Diary Entry Writing</li> </ul>

**MATHS**

<b>Month &amp; Dates</b>	<b>Topic</b>	<b>Art Integration</b>
<b>April 1 to 15</b>	Number upto 9,99,999	PPT
<b>April 16 to 30</b>	Place Value, Chart, Number Names, Numerals, Expand Form	Sketching, JAM
<b>May 1 to 15</b>	Addition & Subtraction	Sketching & Cartooning

			
2.	<b>May 1 to 15</b> <b>May 16 to 30</b>	Addition & Subtraction Multiplication	Sketching & Cartooning  Creating & discussion
3.	<b>July 1 to 15</b> <b>July 16 to 31</b>	Division Length	Value Based Qs. How tall am I & Measurement Garden
4.	<b>Aug. 1 to 15</b> <b>Aug. 16 to 31</b>	Weight Capacity	Measuring balance & sketching Video/Creating daily life problems
5.	<b>September</b>	<b>Revision &amp; Exams</b>	
6.	<b>Oct. 1 to 15</b> <b>Oct. 16 to 31</b>	Time & Calendar Fractions	Model, Time telling activity Fraction, Diagrams to show equivalent fractions
7.	<b>Nov. 1 to 15</b> <b>Nov. 16 to 30</b>	Angles Perimeter	Show angles using waste materials Beautifying Garden/room
8.	<b>Dec. 1 to 15</b> <b>Dec. 16 to 31</b>	Area Volume	Clay modeling or using waste material create 2D & 3D shapes
9.	<b>January</b>	<b>Fun with Patterns</b>	<b>Block Printing</b>
<b>SCIENCE</b>			
	<b>Month &amp; Date</b>	<b>Lesson</b>	<b>Art Integration</b>
1.	<b>April 1 to 15</b> <b>April 16 to 30</b>	Teeth Digestive System	Clay Modeling Sketching & Model
2.	<b>May 1 to 15</b> <b>May 16 to 30</b>	Parts of Plant Different types of roots	Sketching Nature Walk
3.	<b>July 1 to 15</b>  <b>July 16 to 31</b>	Seasonal Flowers & their uses  Seasonal Fruits & their uses	Visit to Rose Garden & Florist  Sketching of flower & fruits, making of making mango pickle
			



4.	<b>Aug. 1 to 15</b> <b>Aug. 16 to 31</b>	Terrestrial & Aquatic Plants Beaks & Claws of different birds	Shadow puppets of plants Sketches of beaks & claws & videos
5.	<b>September</b>	<b>Revision</b>	
6.	<b>Oct. 1 to 15</b> <b>Oct. 16 to 31</b>	Useful & harmful insects Diseases spread by harmful insects	Role Play & Videos
7.	<b>Nov. 1 to 15</b>	Energy giving, Body building	Videos & Sketching Eatwell Plate (Model)
8.	<b>Dec. 1 to 15</b> <b>Dec. 16 to 31</b>	Water (H <sub>2</sub> O) Scarcity & Conservation Safe handling & storage of water	Videos & Sketching Model of traditional & modern filler
9.	<b>Jan. 10 to 31</b>	Water Pollution	Collage showing ways of pollution & posters on prevention of water pollution.
10.	<b>February</b>	<b>Revision</b>	

### SCIENCE

	<b>Date &amp; Month</b>	<b>Topic</b>	<b>Activity</b>
1.	<b>April 1 to 15</b> <b>April 16 to 30</b>	L-1 : Family Relationships L-2 : Sensitivity Towards Others	Drawing Nuclear/Joint Family Sketching Sign Language
2.	<b>May 1 to 15</b> <b>May 16 to 31</b>	Assignments L-1 & 2 L-3 : Celebrating Our Diversity	Drawing pictures of different festivals
3.	<b>July 1 to 15</b> <b>July 16 to 31</b>	L-4: An Ideal Home L-5: Bricks and bridges	Write 5 points to reduce the amount of garbage Drawings pictures of different types of bridges



4.	<b>Aug. 1 to 15</b> <b>Aug. 16 to 31</b>	L-6: Waste Management L-7: The Works We Do	Slogan on save environment Sketch pictures of skilled or unskilled professions
5.	<b>September</b>	<b>Revision</b>	
6.	<b>Oct. 1 to 15</b> <b>Oct. 16 to 31</b>	L-8: Leisure Time L-9 : Directions	PPT on Leisure Time Activities Draw Map Symbols
7.	<b>Nov. 1 to 15</b> <b>Nov. 16 to 30</b>	Assignments 8 & 9 L-10: Travel & Tours	Make posters of endangered species
8.	<b>Dec. 1 to 15</b> <b>Dec. 16 to 31</b>	L-11 : Let us Travel L-12: Let us communicate	Draw a brochure Draw a poster on conservation of Energy
9.	<b>Jan. 10 to 31</b>	L-13: Our Motherland	Make a list of food items that grow in different States
10.	<b>February</b>	<b>Revision</b>	

### MUSIC

Month	Course Covered
April	Gyatri Mantra, Shanti Path, Prayer, National Anthem
May	Saraswati Mantra, Prayer, English Song



<b>April</b>	Gyatri Mantra, Shanti Path, Prayer, National Anthem	
<b>May</b>	Saraswati Mantra, Prayer, English Song	
<b>July</b>	Seasonal Songs, Alankars, Swar	
<b>August</b>	Patriotic Song, Alankar	
<b>September</b>	Festival Songs, Tal- (Dadra)	
<b>October</b>	Definition of Sangeet, Saptak	
<b>November</b>	Tal (Kehrwā)	
<b>December</b>	Christmas Carole	
<b>January</b>	Patriotic Song (26 January)	
<b>February</b>	<b>Revision</b>	
<b>COMPUTER</b>		
<b>Month</b>	<b>Lesson</b>	<b>Art Integration</b>
<b>April</b>	L-1: Computer a Machine	Draw computer parts
<b>May</b>	L-2: More on Tux Paint	Video/Computer drawing
<b>July</b>	L-1 & 2 Practical & Revision Test	Drawing using computer
<b>August</b>	L-3: Exploring Tux Paint	Story writing using Tux Paint
<b>September</b>	L-4: Logo-I	Figures in computer using logo
<b>October</b>	L-5: Logo-II	Figures in computer logo
<b>November</b>	L-6: Writer-Getting Started	Write ups using computer
<b>December</b>	L-7: Editing in Writer	Write UPS/Logo/Cards in scrapbook
<b>January</b>	L-8: Internet	Drawings/Charts
<b>February</b>	Revision / Tests / Practical	

## नैतिक शिक्षा

मास	पाठ	आर्ट इंटिग्रेशन
अप्रैल	पाठ-1: प्रार्थना पाठ-2: आर्य समाज  पाठ-3 : आर्य समाज के नियम पाठ-4: गायत्री मंत्र और उसका अर्थ	भजन गायन कंठस्थ आर्य समाज के संस्थापक के बारे में लिखें। नियमों को चार्ट पर लिखें व याद करें। गायत्री मंत्र कंठस्थ करें।
मई	पाठ:5 : ईश्वर कहां है? पाठ-6 : समर्पण पाठ-7: सृष्टिकर्ता	ईश्वर के पांच नाम लिखें। भजन कंठस्थ करें।
जुलाई	पाठ-8: भगवान शिव कौन है? मृत्यु क्या है? पाठ-9 : दयानन्द प्रशस्ति (सारी दुनिया जगाई) पाठ-10: बाल प्रतिज्ञा  (दयानन्द के वीर सैनिक)	पौराणिक कथा सुनाओ।  भजन गायन कंठस्थ  क्या प्रतिज्ञा करें पर पांच वाक्य लिखो।
अगस्त	दोहराई: पाठ.1 से 10 तक	
सितम्बर	पाठ 1 से 10 तक	
अक्टूबर	पाठ-11 : सत्य पाठ-12: सहनशील दादू  पाठ-13: महाराजा रणजीत सिंह की उदारता पाठ-14: प्रार्थना	सत्य पर कहानी सुनाओ। दादू की सहनशीलता पर वाक्य लिखो। महाराजा रणजीत सिंह पर पांच वाक्य लिखो। प्रार्थना याद कर के सुनाओ।
नवम्बर	पाठ-15: महावीर स्वामी  पाठ-16: महात्मा बुद्ध पाठ-17: महात्मा गांधी  पाठ-18: महारानी लक्ष्मीबाई	महावीर स्वामी का चित्र बनाकर वाक्य लिखें। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय लिखें। महात्मा गांधी जी के बारे में पांच वाक्य लिखो। लक्ष्मीबाई का चित्र बनाकर उनका जीवन परिचय लिखो।



दिसम्बर

पाठ-19: पुष्प की अभिलाषा  
पाठ-20: शिष्टाचार  
पाठ-21: वशीकरण मंत्र

भजन कंठस्थ करें।  
सत्कार कैसे करना चाहिए लिखें।  
भजन गायन कंठस्थ।

जनवरी

दोहराई: पाठ-11 से 18 तक

फरवरी

पाठ-19, 20, 21

**Term-II : पाठ-11 से 21 तक**

fglhh

ek

fnukal

i brd

fu/kkr dk Z

fj; kRed vK\$ i fj; k\$ uk  
dk Z

vi

1 से 15

पु. भा. माधुरी पाठ-1: फ़ैलती चप्पलें  
पु. भा. अभ्यास पृष्ठ संख्याएं-1 से 5 तक  
16 से 30 पु. भा. माधुरी पाठ-2: उल्टा-पुल्टा  
(कविता)

पु. भा. अभ्यास :पृष्ठ संख्याएं-6 से 9 तक

शब्द लड़ी  
कागज़ का बैग बनाना  
कविता गायन  
संज्ञा की पहचान (चार्ट)  
गीत- कोशिश करने वालों  
की कभी.....

मई

1 से 15

पु. भा. माधुरी पाठ-3-अनोखा ढंग  
पु. भा. अभ्यास पृ. संख्याएं: 10 से 13 तक  
अपठित गद्यांश

16 से 30

पु. भा. माधुरी पाठ-4: मित्रता  
पु. भा. अभ्यास पृ. संख्याएं: 14 से 16 तक

गांधी जी से जुड़ी चीज़ों के  
चित्र बनाकर रंग भरो।

कहानी लेखन

जुलाई

1 से 15

पु. भा. माधुरी पाठ-5: शेर का सवा शेर  
पु. भा. अभ्यास पृ. संख्या: 17  
पु. भा. माधुरी पाठ-6 (पहली बारिश)  
पु. भा. अभ्यास पृ. संख्याएं: 18 से 20 तक  
अनुच्छेद : वर्षा का एक दिन

नाटक मंचन  
कहानी लेखन  
चित्र वर्णन  
पानी बचाओ पर स्लोगन  
बारिश के पानी का प्रयोग  
विषय पर कक्षा में परिचर्चा।

16 से 31	पु. भा. माधुरी पाठ-7-दादी का रेडियो	अपनी दादी/नानी के जन्मदिन पर ग्रीटिंग कार्ड बनाइए।
	पु. भा. अभ्यास पृ. संख्याएं: 21 से 24 तक पत्र: (अनौपचारिक पत्र) अपनी दादी के जन्मदिन पर बधाई पत्र।	नाटक मंचन घर में बड़े बुजुर्गों के महत्व पर कक्षा में परिचर्चा।

**अगस्त 1 से 15** पु. भा. माधुरी पाठ-8: किस्से कहावतों की दुनिया  
कहावतें- जैसी करनी वैसी भरनी  
जिसकी लाठी उसकी भैंस

16 से 31 पु. भा. माधुरी पाठ-9: नानी की नाव चली  
पु. भा. अभ्यास पृष्ठ संख्या: 29  
अभी तक करवाए गए कार्य की पुनरावृत्ति।

### सितंबर परीक्षा का समय

अक्टूबर 1 से 15	पु. भा. माधुरी पाठ-10: एक बौना और लकड़हारा	वर्ग पहेली/शब्द जाल
	पु. भा. अभ्यास पृ.संख्याएं: 30 से 33 तक	संवाद शैली
16 से 30	पु. भा. माधुरी पाठ-11: मौसम (कविता)	अपने मनपसंद मौसम का चित्र बनाइए व उसके विषय में लिखें।
	पु. भा. अभ्यास पृ.संख्याएं: 34 से 36 तक पत्र: अपने पसंदीदा मौसम के बारे में बताते हुए अपनी नानी/दादी जी को पत्र लिखें। अनुच्छेद: मेरी अभिलाषा	हिंदु कैलेंडर बनाइए (छ: ऋतुओं को चित्र सहित)

**नवंबर 1 से 15** पु. भा. माधुरी पाठ-12: आंख मिचौनी (केवल पढ़ने के लिए)  
खेलों के महत्व पर अनुच्छेद  
अनुच्छेद: खेलों का महत्व, सफलता का महत्व

पु. भा. अभ्यास पृ.संख्या: 37

अपठित गद्यांश

16 से 30 पाठ-13: चतुर चित्रकार (कविता)

अलटा-पलटी (मुहावरे)

पु. भा. अभ्यास पृ.संख्याएं: 38 से 41 तक

दिसंबर 1 से 15

पु. भा. माधुरी पाठ-14: एक थी स्वाति

विज्ञापन लेखन

पु. भा. अभ्यास पृ.संख्याएं: 42 से 44 तक

विज्ञापन: कार, मोबाईल,

बाज़ार में मिलने वाली किसी

भी वस्तु का विज्ञापन।

अनुच्छेद: शिष्टाचार

16 से 31 पु. भा. माधुरी पाठ-15: होली के रंग

होली कैसे मनाते हैं व

हज़ार

कौन-2 सी सावधानियां रखते

पत्र: होली के त्योहार पर मित्र को होली

हैं? कोई पांच सावधानियां

खेलने के लिए निमंत्रण पत्र।

लिखें।

अपठित गद्यांश

जनवरी 10 से 31

पु. भा. माधुरी पाठ-16: ऐसे भी बच्चे

पढ़ा-लिखा होने के कोई

पांच फायदे बताएं।

पु. भा. अभ्यास पृ.संख्याएं: 49 से 52 तक

पोस्टर (शिक्षा का महत्व)

स्लोगन लेखन

वर्ग पहेली

पु. भा. माधुरी पाठ-17: कोयल (कविता)

कविता वाचन

पु. भा. अभ्यास पृ. संख्याएं: 53 से 55 तक

विभिन्न पक्षियों के चित्र

बनाइए और रंग भरिए।

पु. भा. माधुरी पाठ-18: खत पहुंचे सक्को

को

पु. भा. अभ्यास पृ.संख्या: 56

फरवरी

अभी तक करवाए गए कार्य

की पुनारावृत्ति।

मार्च

परीक्षा का समय

